

प्रेस नोट दिनांक 06-10-2021

प्रभारी साइबर सेल, सहारनपुर द्वारा “साइबर जागरुकता दिवस” के अवसर पर स्कूल के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षिकाओं तथा बैंक में आये आम जनमानस तथा बैंक के समस्त स्टाफ को किया जागरूक:-

अवगत करना है कि श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा जनपदों के समस्त पुलिस अधिकारियों को प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को “साइबर जागरुकता दिवस” के अन्तर्गत साइबर अपराध के संबंध में आमजन मानस को जागरूक किये जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम आज दिनांक 06-10-2021 को प्रभारी साइबर सेल, सहारनपुर मय टीम द्वारा थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत स्थित पाइनव्यू स्कूल में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षिकाओं तथा पंजाब नेशनल बैंक में आये आम जनमानस तथा बैंक के समस्त स्टाफ को साइबर अपराध जैसे इन्टरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड, ओलेक्स फ्राड, वालेट/यूपीआई संबंधित धोखाधड़ी में बरती जाने वाली सावधानिया, फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्राड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्राड के संबंध में सावधानियां, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट्स से हनी ट्रैप आदि के बचाव के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुये जागरूक किया गया। इसके साथ साथ खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 155260 पर काल करने हेतु बताया गया।

प्रेस नोट दिनांक 06-10-2021

थाना कु0शेर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 05.10.2021 को थाना कु0शेर पुलिस द्वारा हौजखेडी चौराहा से अभि0 मोबीन पुत्र शरफराज निवासी चांद कालोनी सकूरी मस्जिद थाना मण्डी सहारनपुर को एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कु0शेर पर मु0अ0सं0 355/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा अवैध नशीली गोलियों सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 05.10.2021 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा माहीपुरा रोड से अभि0 सलमान पुत्र रिजवान निवासी चकरेहटी थाना जनकपुरी सहारनपुर को 200 अवैध नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 292/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना रामपुर पुलिस द्वारा अवैध देशी शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 05.10.2021 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा जानखेडा से अभि0 जगपाल पुत्र रघुवीर निवासी इस्लाम नगर थाना रामपुर सहारनपुर को 21 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर पर मु0अ0सं0 323/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 05.10.2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल कस्बा मिर्जापुर से अभि0 हसीन पुत्र शब्बीर निवासी कस्बा मिर्जापुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर को एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 255/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीडिया सेल
जनपद सहारनपुर।